



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 919) पटना, शुक्रवार, 13 सितम्बर 2024

पत्र संख्या— 01लो0ले0स0-03/24-323/वि0स0।
बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक,

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार ।

पटना, दिनांक—2 अगस्त 2024

विषय:— भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के “अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” एवं “स्थानीय सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के “राज्य के वित्त” प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के “अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” एवं “स्थानीय सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” तथा 31 मार्च

2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को माननीय वित्त मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा दिनांक-25.07.2024 को उपस्थापित किया गया तथा "प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन
असीम कुमार,
निदेशक।

प्रस्ताव

"भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के "अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" एवं "स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष 2022-23 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन का बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

असीम कुमार,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 919+571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>